



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 फाल्गुन 1935 (श०)  
(सं० पटना 244) पटना, बुधवार, 5 मार्च 2014

---

सं० 3ए-2-वे०पु०-7/2014-2097-वि०

वित्त विभाग

-----

प्रेषक,

प्रभात शंकर,  
अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
महालेखाकार कार्यालय,  
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय:- उप-प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के वेतनमान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उप-प्राचार्य पद के लिए वित्त विभागीय संकल्प सं० 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा, दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे 4200/- की स्वीकृति दी गयी है ।

2. इन पदों पर नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष वेतनमान के साथ किसी कारखाने में एकवर्षीय पर्यवेक्षण का एवं किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में एक वर्ष

का शैक्षणिक अनुभव है। इस पद पर अनुदेशक संवर्ग से प्रोन्नति का भी प्रावधान है। अनुदेशक संवर्ग के लिए पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे 4200/- का वेतनमान स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में दोनों पदों का वेतनमान एक हो जाता है।

3. उप-प्राचार्य के पद के शैक्षणिक योग्यता तथा अनुदेशक संवर्ग से प्रोन्नति का पद होने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उप-प्राचार्य पद के वेतनमान का संशोधन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त उप-प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का वेतनमान पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे-4200/- को संशोधित करते हुए पे-बैंड-2 एवं ग्रेड-पे-4600/- स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा उप-प्राचार्य के लिए स्वीकृत वेतनमान को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन,

प्रभात शंकर,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 244-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>